

2017/08/13

प्रेषक,

संख्या - /IX-1/08(13) /2017

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 16 अगस्त, 2017

विषय- चालक प्रशिक्षण संस्थान, झांझरा, देहरादून में हिलट्रेक के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-235/नियोजन/13-93/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 275.80 लाख तथा उत्तराखण्ड नियमावली, 2008 के प्राविधानों से आच्छादित कार्यों के लिए रू0 स्वीकृत 41.49 लाख अर्थात् कुल स्वीकृत धनराशि रू0 317.29 लाख (रू0 तीन करोड़ सत्रह लाख उन्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 80.00 लाख (रू0 अस्सी लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2016 द्वारा निर्गत की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 26.67 लाख (रू0 छब्बीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2016 द्वारा रू0 53.33 लाख (रू0 तिरैप्पन लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। इस प्रकार कार्य हेतु अनुमोदित लागत ₹ 317.29 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 160.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है अतः उक्त के क्रम में कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 80.00 लाख (रू0 अस्सी लाख मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृति नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिय जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

(vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तदायी होंगे।

(viii) कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-आयोजनागत-050-भूमि तथा भवन-04 देहरादून चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के अन्तर्गत निर्धारित निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी० सेन्थिल पाण्डेयन)  
सचिव।

संख्या 584 (1) / IX-1 / 08(13) / 2017 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोअर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, बैभव पैलेश सी 1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)  
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Transport (S053)

आवंटन पत्र संख्या - 08/IX-1/2013

अनुदान संख्या - 024

अलोटमेंट आई डी - S1708240148

आवंटन पत्र दिनांक - 16-Aug-2017

HOD Name - Transport Commissioner (4063)

- 1: लेखा शीर्षक 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00 -  
050 - भूमि तथा भवन  
04 - देहरादून में चालक प्रशिक्षण सस्थान की स्थापना  
00 - देहरादून में चालक प्रशिक्षण सस्थान की स्थापना

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
24 - बहत निर्माण कार्य	0	8000000	8000000
	0	8000000	8000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

8000000